

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013—पौष 28, शक 1934

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. 3199-जनगणना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, में दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील धार	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील धार.	तहसील धार के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
	तहसील बदनावर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बदनावर.	तहसील बदनावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
	तहसील सरदारपुर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सरदारपुर.	तहसील सरदारपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
	तहसील मनावर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मनावर	तहसील मनावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	तहसील कुक्षी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कुक्षी.	तहसील कुक्षी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
	तहसील धरमपुरी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील धरमपुरी.	तहसील धरमपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
	तहसील गंधवानी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील गंधवानी.	तहसील गंधवानी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
	तहसील डही	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील डही.	तहसील डही के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	नगरपालिका धार	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका धार.	नगरपालिका धार के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगरपालिका मनावर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका मनावर	नगरपालिका मनावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगरपालिका पीथमपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका पीथमपुर.	नगरपालिका पीथमपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, सरदारपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सरदारपुर.	नगर पंचायत, सरदारपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, राजगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, राजगढ़.	नगर पंचायत, राजगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, बदनावर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बदनावर.	नगर पंचायत, बदनावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, माण्डव	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, माण्डव.	नगर पंचायत, माण्डव के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, धामनोद	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, धामनोद.	नगर पंचायत, धामनोद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, धरमपुरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, धरमपुरी.	नगर पंचायत, धरमपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, कुक्षी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कुक्षी.	नगर पंचायत, कुक्षी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	नगर पंचायत, डही	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, डही.	नगर पंचायत, डही के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
3	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
4	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-धार

दिनांक 31 दिसम्बर 2012.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. 49-जियोसां-जनगणना-2013-संशोधन.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है. इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2947-जियोसां-जनगणना-2012/मंदसौर, दिनांक 26 नवम्बर 2012 के अनु. क्र. 20 के कॉलम नं. (5) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
20	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

शशांक मिश्र, कलेक्टर.